


रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1981/बैसाख 16, 1903

No 15] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6 1981/VAISAKHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1981]

आ० अ० 24(अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट आमान सन्दर्भ 4 प्रत्येक आफिसर को तारीख 19 अक्टूबर 1979 की अपनी अधिसूचना सं० 474 आन०/79(2) में नियुक्त किए गए आफिसरों के अतिरिक्त, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट आमान राज्य के सार्वजनिक निर्वाचन क्षेत्र के

रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है —

सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1 12-जोरहट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	उपखंड आफिसर, मजुली।
2 13-दिब्रूगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	उपखंड आफिसर, सदिया।
3 14-लखिमपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	उपखंड आफिसर, जोनाई।

[सं० 434/आसाम/81(2)]

एस० सी० जैन, प्रथम सचिव,

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1981

O.N.24(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints each of the officers of the Government as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officers in addition to the officers appointed in its notification No. 434/AS/79(2), dated the 19th October, 1979, to assist the Returning Officer of the parliamentary constituency in the State of Assam as specified in column (1) of the said Table in the performance of the functions of such Returning Officer.

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. Returning Officer of 12-Jorhat Parliamentary Constituency.	Subdivisional Officer, Majuli.
2. Returning Officer of 13-Dibrugarh Parliamentary Constituency.	Subdivisional Officer, Sadiya.
3. Returning Officer of 14-Lakhimpur Parliamentary Constituency.	Subdivisional Officer, Jonai.

[No 434/AS/81(2)]

S.C. J. IN, Under Secy.